

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 मई 2015—वैशाख 17, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

क्र. आर-338-सीसी-14-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 36 की उपधारा (1), (3), (4) एवं (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को निम्नानुसार पुनर्गठित करती है, अर्थात्:—

- (1) सभापति (चेयरमेन)
डॉ. ए. के. पाण्डे,
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, भोपाल.
- (2) सदस्य पूर्णकालिक
 - (क) सदस्य—शैक्षणिक
श्रीमती चित्रलेखा चौहान,
1240 समर्पण, सहयोग बिल्डिंग के निकट,
नर्मदा रोड, ग्वारीघाट, जबलपुर.
 - (ख) सदस्य—प्रशासनिक
श्री स्वराज पुरी,
ई-9, एच-1, चार इमली, भोपाल.
- (3) सदस्य अंशकालिक
 - (क) श्रीमती नयनतारा पाठक,
डी-10, सीनियर एम.आई.जी., बी.डी.ए. कॉलोनी,
कोहेफिजा, भोपाल.

- (ख) प्रोफेसर व्ही. पी. सिंह,
ई-17, सीनियर एम.आई.जी., बी.डी.ए. कॉलोनी,
कोहेफिजा, भोपाल.
- (4) सचिव-पूर्णकालिक
श्री सुरेश गुप्ता,
5, राजकमल विला, अल्कापुरी कॉलोनी, न्यू हाईकोर्ट के पास,
ओहदपुर, मुरार, ग्वालियर.

No. R-338-CC-14-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3), (4) and (8) of Section 36 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby reconstitutes Private University Regulatory Commission consisting of the following namely:—

- (1) CHAIRMAN
Dr. A. K. Pandey,
M. P. Private University Regulatory Commission,
Gyan Vatika, Walmi Road, Bhopal.
- (2) MEMBERS-FULL TIME
- (a) Member—Academic
Smt. Chitralkha Chouhan
1240, Samarpan, Near Sahayog Building,
Narmada Road, Gwarighat, Jabalpur.
- (b) Member—Administration
Shri Swaraj Puri,
E-9, H-1, Char Imli, Bhopal.
- (3) MEMBERS-PART TIME
- (a) Smt. Nayantara Pathak,
D-10, Sr. MIG, BDA Colony, Koh-e-Fiza, Bhopal.
- (b) Prof. V. P. Singh,
E-17, Sr. MIG, BDA Colony, Koh-e-Fiza, Bhopal.
- (4) SECRETARY-FULL TIME
Shri Suresh Gupta,
5-Rajkamal Vila, Alkapuri Colony, Near High Court,
Ohadpur, Morar, Gwalior.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.